



भाकृअनुप-केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान

परिसर-मोदीपुरम-250110, मेरठ(उ.प्र.)

ICAR-Central Potato Research Institute
Campus-Modipuram-250110, Meerut (UP)



पत्र सं०: 5-6/Disposal/2019-20/भ०/2731

दिनांक: 30, अगस्त, 2019

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भाकृअनुप- केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान परिसर, मोदीपुरम, मेरठ- 250 110, में पुराना निम्नलिखित सामान संस्थान के मोदीपुरम परिसर एवं मछरी प्रक्षेत्र नीलामी हेतु पर उपलब्ध है। नीलामी दिनांक 12 सितम्बर 2019, समय 11:00 बजे सुबह संस्थान के मोदीपुरम परिसर एवं मछरी प्रक्षेत्र पर होगी।

सामान का ब्यौरा- बस, जीप, ट्रैक्टर और ट्रॉली के टायर व ट्यूब, पुरानी बोरियां व प्लास्टिक क्रेट्स तथा डीजल के पुराने खाली ड्रम ।

सामान्य नियम व शर्तें निम्न हैं-

- सामान की नीलामी जहां है, जैसे हैं, के आधार पर की जायेगी।
- सामान का निरीक्षण समय 10:00 बजे सुबह से 11:00 बजे तक बोली लगाने से पूर्व उसी दिन किया जा सकता है।
- प्रत्येक बोली लगाने वाले को रजिस्ट्रेशन कराने हेतु रु० 5,000/- (पाँच हजार मात्र) धरोहर राशि के रूप में जमा करने होंगे। धरोहर राशि के अतिरिक्त कोई भी लेनदेन नगद रूप में नहीं किया जायेगा। बिना धरोहर राशि जमा कराये बोली बोलने का अधिकार नहीं होगा।
- 100/- रुपये से कम बढत की बोली मान्य नहीं होगी।
- जिस व्यक्ति की बोली स्वीकार की जायेगी उसे ढेर की अनुमानित लागत का 25% धन उसी दिन बैंक ड्राफ्ट या ऑनलाईन जैसे मनी ट्रांसफर/NEFT/RTGS आदि के माध्यम से जमा करना होगा अन्यथा बोली मान्य नहीं होगी और धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
- नीलामी झूटने पर सामान की लागत का सम्पूर्ण भुगतान तीन कार्य दिवसों के अन्दर मोदीपुरम कार्यालय में 2:00 बजे तक बैंक ड्राफ्ट, ऑनलाईन जैसे मनी ट्रांसफर/NEFT/RTGS आदि के माध्यम से जमा करके सामान ले जाना होगा।
- तीन कार्य दिवसों में सामान न ले जाने पर रु० 100/- प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज लिया जायेगा और नीलामी तारीख से दस दिन के अन्दर सम्पूर्ण पैसा न जमा करने अथवा सामान न ले जाने पर कार्यालय में जमा धरोहर राशि व 25% जमा राशि जब्त कर ली जायेगी, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे।
- केन्द्र से कोई लेबर या अन्य सुविधा आदि नहीं दी जायेगी। सामान जिस स्थिति में और जहां है जैसे है, के आधार पर ले जाना होगा।
- समिति को हक होगा कि वह बोली की कीमत कम आने की स्थिति में बोली दुबारा शुरु करवा सकती है।
- इस नीलामी से संबंधित यदि सरकारी या अन्य कोई कर देय होगा तो उसकी देनदारी भी बोली दाता की होगी।



एक कदम, एक लक्ष्य
विज्ञानों का हस्तक्षेप
कृषि में अधिकतम विकास
Agriculture with a human touch



भाकृअनुप-केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान

परिसर-मोदीपुरम-250110, मेरठ (उ.प्र.)

ICAR-Central Potato Research Institute
Campus-Modipuram-250110, Meerut (UP)



- बिना कारण बताये इस नीलामी को रद्द करने का संयुक्त निदेशक महोदय को पूर्ण अधिकार होगा जिसे मानने के लिए सभी बाध्य होंगे।
- विवाद होने की स्थिति में अंतिम फैसला निदेशक महोदय, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला का होगा। जिसे मानने के लिए सभी बाध्य होंगे।
- बोली सूचना संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

प्रशासनिक अधिकारी

वितरण:-

1. विभिन्न सार्वजनिक स्थानों/स्थानीय निकायों के सूचना पट्टों पर चस्पा करने हेतु।
2. प्रभारी अधिकारी ए.के.एम.यू. को इस आशय के साथ प्रेषित है कि इस नीलामी सूचना को संस्थान के वेब-साइट पर डालने की कृपा करें।
3. सूचनापट्ट कार्यालय-सूचना पट्ट प्रक्षेत्र कार्यालय, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम, मेरठ।
4. कार्यालय प्रति।